

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2018

क्र. एफ-35-41-2018-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, 27-कोलारस, जिला शिवपुरी एवं 34-मुंगावली, जिला अशोकनगर विधान सभा उप-निर्वाचन 2018 के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनिमय, 1951 की धारा 28(क) के लिए नामांकित अधिकारी माना जावेगा :—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
3. रेंज पुलिस महानीरीक्षक, ग्वालियर, म. प्र.
4. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी एवं अशोकनगर व उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य में लगे पुलिस अधिकारीगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. भोसले, उपसचिव,